

तुरंत रिलीज के लिए

ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल ने निवासियों, कारोबारियों और सामुदायिक समूहों की मदद के लिए उपभोक्ता फीसों में बदलावों को मंजूरी दी

ब्रैम्पटन, ओनटारियो (29 मई, 2020) – इस सप्ताह, ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल ने, समुदाय पर कोविड-19 (COVID-19) के आर्थिक प्रभावों को कम करने में मदद के लिए, उपभोक्ता फीसों (यूजर फीसों) के बाइ-लॉ में बदलावों को मंजूरी दी।

बुधवार को अपनी मीटिंग में, काउंसिल ने रेक्रिएशन (Recreation), परफॉर्मिंग आर्ट्स (Performing Arts), फैसिलिटी सर्विसिज (Facility Services), फायर एंड एमरजेंसी सर्विसिज (Fire and Emergency Services), लेजिस्लेटिव सर्विसिज (Legislative Services) के साथ-साथ, पार्क्स एंड फोरेस्ट्री (Parks and Forestry) के क्षेत्रों में, बहुत बड़ी संख्या में 2020 की मौजूदा उपभोक्ता फीसों को कम करके 2019 के रेट्स पर करने के लिए मंजूरी दी। ये बदलाव 1 जुलाई, 2020 से लागू होंगे। ये साल के अंत तक, \$1,021,000 की राहत प्रदान करेंगे।

सिटी, निवासियों को कई प्रकार के ऐसे प्रोग्राम और सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो पहुंच योग्य और उनके खर्च किए पैसे की पूरी कीमत चुकाने वाले हों। सिटी, उपभोक्ता फीसों की मदद से सेवाओं के खर्च पूरे करती है और इससे प्रॉपर्टी टैक्स रेट पर बोझ को कम करने में मदद मिलती है।

ये बदलाव, रीजनल काउंसिलर मार्टिन मेडेइरोस (Martin Medeiros) की अगुआई में संचालित, मेयर्स रीओपनिंग एंड रिकवरी वर्किंग ग्रुप (Reopening and Recovery Working Group) के द्वारा आम जनता को शामिल करके लिए गए सुझावों के तुरंत बाद किए गए हैं। अब तक, 3,900 से अधिक व्यक्तियों और समूहों ने, सिटी के [ऑनलाइन सर्वेक्षण \(online survey\)](#) और लगातार स्टेकहोल्डर मीटिंगों के द्वारा सुझाव प्रदान किए हैं।

सिटी का ऑनलाइन रिकवरी एंड रीओपनिंग सर्वेक्षण (Recovery and Reopening Survey) 14 जून, 2020 तक जारी रहेगा। निवासियों और कारोबारियों को, शहर को दुबारा खोलने के संबंध में, सिटी की योजनाओं के बारे में उनकी राय देने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

अधिक जानकारी के लिए, www.brampton.ca/COVID19 पर जाएं।

हवाले

“कोविड-19 के दौरान पूरा समय, हमारी काउंसिल ने, ऑनलाइन और टेलिफोन टाउन हॉल्स के द्वारा, हमारे समुदाय के सभी मेम्बर्स से जुड़ी रही है। हमने उन हज़ारों लोगों से सीधी राय ली है, जिन पर कोविड-19 ने बहुत बड़ा आर्थिक असर डाला है। इस सप्ताह का नतीजा दर्शाता है कि हम साथ मिलकर हमारी सामूहिक बहाली को सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“मेयर्स रीओपनिंग एंड रिकवरी ग्रुप के शुरू होने के बाद, हमने सिटी को दुबारा खोलने की तरफ आगे बढ़ने की योजना बनाते समय, हमारे निवासियों, कारोबारियों और स्टैकहोल्डर समूहों से इस बारे में राय ली कि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। हम ऐसी योजना बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो हमारे समुदाय से प्राप्त सुझावों के आधार पर तैयार की गई हो। हम लगातार, ऐसे अर्थपूर्ण सुझाव लेते रहेंगे और उसके अनुसार काम करेंगे।”

- *मार्टिन मेडेइरोस (Martin Medeiros), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 3 और 4; लीड, मेयर्स रीओपनिंग एंड रिकवरी वर्किंग ग्रुप*

“चूंकि सिटी चरणबद्ध तरीके से, शहर को दुबारा खोलने की योजना बना रही है, यह जरूरी है कि हमारे समुदाय को इसमें शामिल किया जाए और वे लगातार इन महत्वपूर्ण बातचीत में हिस्सा लें। मैं सभी निवासियों को सलाह देता हूँ कि वे ऑनलाइन सर्वेक्षण में हिस्सा लें, जो उनकी राय लेने के लिए किया जा रहा है। वे सुनिश्चित करें कि सिटी के अगले कदम, हमारे समुदाय की जरूरतों को बेहतर ढंग से दर्शाते हैं।”

- *डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोआर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca